

Transliteration–Telugu

Transliteration as per Modified Harvard-Kyoto (HK) Convention
(including Telugu letters – Short e, Short o) -

a A i I u U
R RR IR IRR
e E ai o O au M (H or :)

(e – short | E – Long | o – short | O – Long)

k kh g gh n/G
c ch j jh n/J (jn – as in jnAna)
T Th D Dh N
t th d dh n
p ph b bh m
y r l L v
S sh s h

pAhi ramA ramaNa-varALi

In the kRti ‘pAhi ramA ramaNa’ – rAga varALi (tALa Adi), SrI tyagarAja, while pleading with the Lord, presents excellent examples.

- P pAhi ramA ramaNa mAM
pAhi sad-guNa gaNa harE rAma
- C1 cinta mAna ¹nIdu karuNa
isum(a)nta rAdu harE rAma (pAhi)
- C2 entani sairintu
²nEn(E)mani vEgintu harE rAma (pAhi)
- C3 ahaha ³ciluka kUna
brahm(A)stramunaku tagunA harE rAma (pAhi)
- C4 cEti malle pUvu
guNDrAtik(O)rva pOdu harE rAma (pAhi)
- C5 ⁴dOsa paNDuk(e)TTu rAma
tOcun(i)nupa kaTTu harE rAma (pAhi)
- C6 dEva dEva venna katti
debbak(O)rcukonunA harE rAma (pAhi)
- C7 talli taNDri brOvak(u)NTE
tanayunik(E) drOva harE rAma (pAhi)
- C8 rAja varya SaraNa
tyAgarAja vinuta caraNa harE rAma (pAhi)
- Gist
O Beloved of lakshmi! O Lord of many virtues! O Lord rAma!
O Lord of celestials!

O Refuge of even the eminent Kings! O Lord whose holy feet are well-praised by this tyAgarAja!

Deign to protect me; deign to protect me.

If Your thought is ceased, Your mercy will not come forth even a little.

How much shall I endure? As to what shall I grieve?

Alas! Would a parrot chick deserve a missile of brahmA?

Hand-held jasmine flower won't bear a pestle.

How would an iron clad feel like to yellow melon fruit?

Would butter withstand a blow of dagger?

What is the way out for the child, if the parents are not protecting him?

Word-by-word Meaning

P O Beloved (ramaNa) of lakshmi (ramA)! Deign to protect (pAhi) me; O Lord of many (gaNa) virtues (sad-guNa)! Deign to protect (pAhi) me (mAM); O (harE) Lord rAma!

C1 O (harE) Lord rAma! If Your (nIdu) thought (cinta) is ceased (mAna), Your mercy (karuNa) will not come forth (rAdu) even a little (isumu anta) (literally as much as sand-grain) (isumanta);

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C2 O (harE) Lord rAma! How much (entani) shall I (nEnu) endure (sairintu)? As to what (Emani) (nEnEmani) shall I grieve (vEgintu) (literally suffocate)?

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C3 O (harE) Lord rAma! Alas (ahaha)! Would a parrot (ciluka) chick (kUna) deserve (tagunA) a missile (astramunaku) of brahmA (brahmAstramunaku)?

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C4 O (harE) Lord rAma! Hand-held (cEti) jasmine (malle) flower (pUvu) won't (pOdu) bear (Orva) a pestle (guNDrAtiki) (guNDrAtikOrva);

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C5 O (harE) Lord rAma! How (eTTu) would an iron (inupa) (tOcuninupa) clad (kaTTu) (literally bondage) feel like (tOcunu) to yellow melon fruit (dOsa paNDuku) (paNDukeTTa)?

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C6 O (harE) Lord rAma! O Lord (dEva) of celestials (dEva)! Would butter (venna) withstand (OrcukonunA) a blow (debbaku) (debbakOrcukonunA) of dagger (katti)?

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C7 O (harE) Lord rAma! What (E) is the way out (drOva) for the child (tanayanuki) (literally son) (tanayunikE) if the parents (talli taNDri) (literally mother and father) are not protecting (brOvaka uNTE) (brOvakuNTE) him?

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

C8 O (harE) Lord rAma! O Refuge (SaraNa) of even the eminent (varya) Kings (rAja)! O Lord whose holy feet (caraNa) are well-praised (vinuta) by this tyAgarAja!

O Beloved of lakshmi! Deign to protect me; O Lord of many virtues! Deign to protect me; O Lord rAma!

Notes –

Variations -

Order of caraNas is changed in some books.

¹ – nIdu karuNa isumanta – nIdu isumanta karuNa.

² – nEnEmani – nEnentani.

References -

³ - ciluka kUna brahmAstramunaku taguna – The reference is to SrImad vAlmiki rAmAyaNa, sundara kANda, Chapter 38 wherein sItA narrates to AnjanEya about an incident in their private moments. Once, when SrI rAma was napping in the lap of sItA, a crow tried to eat the body flesh of sItA; on waking up, SrI rAma, finding sItA bleeding, got annoyed with the crow and delivered brahmAstra – an ultimate weapon - to kill it. Though, ultimately He saves the life of the crow, SrI tyAgarAja seems to say that the Lord was too harsh in using brahmAstra against a mere crow. Please refer to -

http://valmikiramayana.net/sundara/sarga38/sundara_38_frame.htm

Comments -

⁴ – dOsa paNDu – (Cucumis sativus) – inupa kaTTu – At the stage when the yellow melon begins to ripe, a cloth covering is made in order to protect it from birds etc. SrI tyAgarAja questions as to how the fruit will feel if, instead of a cloth, iron clad is used.

Devanagari

प. पाहि रमा रमण मां

पाहि सद्गुण गण हरे राम

च1. चिन्त मान नीदु करुण

इसु(म)न्त रादु हरे राम (पा)

च2. ए(न्त)नि सैरिन्तु

नेने(म)नि वेगिन्तु हरे राम (पा)

च3. अहह चिलुक कून

ब्र(ह्मा)स्त्रमुनकु तगुना हरे राम (पा)

च4. चेति मल्ले पूवु

गुण्ड्राति(को)र्व पोदु हरे राम (पा)

च5. दोस पण्डु(के)ट्टु राम

तोचु(नि)नुप कट्टु हरे राम (पा)

च6. देव देव वेन्न कत्ति

देब्ब(को)र्चुकोनुना हरे राम (पा)

च7. तल्लि तण्ड्रि ब्रोव(कु)ण्टे

तनयुनि(के) द्रोव हरे राम (पा)

च8. राज वर्य शरण

त्यागराज विनुत चरण हरे राम (पा)

English with Special Characters

pa. pāhi ramā ramaṇa māṃ

pāhi sadguṇa gaṇa harē rāma

ca1. cinta māna nīdu karuṇa

isu(ma)nta rādu harē rāma (pā)

ca2. e(nta)ni sairintu

nēnē(ma)ni vēgintu harē rāma (pā)

ca3. ahaha ciluka kūna

bra(hmā)stramunaku tagunā harē rāma (pā)

ca4. cēti malle pūvu

guṇḍrāti(kō)rva pōdu harē rāma (pā)

ca5. dōsa paṇḍu(ke)ṭṭu rāma

tōcu(ni)nupa kaṭṭu harē rāma (pā)

ca6. dēva dēva venna katti

debba(kō)rcukonunā harē rāma (pā)

ca7. talli taṇḍri brōva(ku)ṇṭē

tanayuni(kē) drōva harē rāma (pā)

ca8. rāja varya śaraṇa

tyāgarāja vinuta caraṇa harē rāma (pā)

Telugu

ప. పాహి రమా రమణ మాం

పాహి సద్గుణ గణ హరే రామ

చ1. చిన్త మాన నీదు కరుణ

ఇసు(మ)న్త రాదు హరే రామ (పా)

చ2. ఎ(న్త)ని సైరిన్తు

నేనే(మ)ని వేగిన్తు హరే రామ (పా)

చ3. అహహ చిలుక కూస

బ్ర(హ్మ)స్త్రిమునకు తగునా హరే రామ (పా)

చ4. చేతి మల్లె పూవు

గుణ్ణాతి(కో)ర్వ పోదు హరే రామ (పా)

చ5. దోస పణ్ణు(కె)ట్టు రామ

తోచు(ని)నుప కట్టు హరే రామ (పా)

చ6. దేవ దేవ వెన్న కత్తి

దెబ్బ(కో)ర్చుకొనునా హరే రామ (పా)

చ7. తల్లి తణ్ణి బ్రోవ(కు)ణ్ణే

తనయుని(కే) ద్రోవ హరే రామ (పా)

చ8. రాజ వర్య శరణ

త్యాగరాజ వినుత చరణ హరే రామ (పా)

Tamil

ప. పాఱి రమా రమణ మామ్

పాఱి టత్-క్ర³ణ క³ణ ఱరే రామ

స1. శిన్త మాన నీత్తు³ కరుణ

ఇసు(మ)న్త రాత్తు³ ఱరే రామ (పా)

స2. ఎన్(త్)ని టిరిన్తు

నేనే(మ)ని వేగిన్తు ఱరే రామ (పా)

స3. అఱఱు శిల్లుక కుణ

బ్ర(హ్మ)స్త్రిమునకు తగునా ఱరే రామ (పా)

స4. శేతి మల్లె పూవు

గుణ్ణాతి(కో)ర్వ పోదు ఱరే రామ (పా)

స5. తో³స పణ్ణు(కె)ట్టు రామ

తో³చు(ని)నుప కట్టు ఱరే రామ (పా)

స6. దే³వ దే³వ వెన్న కత్తి

దెబ్బ(కో)ర్చుకొనునా ఱరే రామ (పా)

- ச7. தல்லி தண்ட்ரி ப்ரோவ(குண்டே
தனயுனி(கே) த்ரோவ ஹரே ராம (பா)
ச8. ராஜ வர்ய ஸரண
த்யாக்ராஜ வினுத சரண ஹரே ராம (பா)

காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!

1. உனது சிந்தனை அகல, கருணை
சிறிதளவும் வாராது, ஓ இராமா!
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
2. எவ்வளவென்று பொறுப்பேன்?
நான் என்னவென்று புழுங்குவேன், ஓ இராமா?
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
3. ஐயகோ! கிளிக்குஞ்சு
பிரமாத் திரத்திற்குத் தகுமா, ஓ இராமா?
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
4. கை மல்லிகைப் பூ
உரலினைத் தாங்காது, ஓ இராமா!
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
5. வெள்ளரிப்பழத்திற்கு, எங்ஙனம், இராமா!
தோன்றும், இரும்புக் காப்பு, ஓ இராமா?
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
6. தேவ தேவா! வெண்ணெய், கத்தி
வெட்டினைத் தாளுமா, ஓ இராமா?
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
7. தாய் தந்தையர் காவாதிருந்தால்,
தனயனுக்கென்ன வழி, ஓ இராமா?
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்
காப்பாய், நற்பண்புகளோனே, ஓ இராமா!
8. சிறந்த மன்னர்களின் புகலே!
தியாகராசன் போற்றும் திருவடிகளோனே! ஓ இராமா!
காப்பாய், இரமை மணாளா! என்னைக்

ಕಾಪ್ಪಾಯ್, ನ್ಹಪಣ್ಣಪುಕಲೋಗೇ, ಓ ಇರಾಮಾ!

Kannada

ಪ. ಪಾಹಿ ರಮಾ ರಮಣ ಮಾಂ

ಪಾಹಿ ಸದ್‌ಗುಣ ಗಣ ಹರೇ ರಾಮ

ಚಗ. ಚಿನ್ನ ಮಾನ ನೀದು ಕರುಣ

ಇಸು(ಮ)ನ್ನ ರಾದು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೨. ಎ(ನ್ನ)ನಿ ಸೈರಿನ್ನು

ನೇನೇ(ಮ)ನಿ ವೇಗಿನ್ನು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೩. ಅಹಹ ಚಿಲುಕ ಕೂನ

ಬ್ರ(ಹ್ಯಾ)ಸ್ತ ಮುನಕು ತಗುನಾ ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೪. ಚೇತಿ ಮಲ್ಲೆ ಪೂವು

ಗುಣ್ಣಾತಿ(ಕೋ)ರ್ದ್ವ ಪೋದು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೫. ದೋಸ ಪಣ್ಣ(ಕೆ)ಟ್ಟು ರಾಮ

ತೋಚು(ನಿ)ನುಪ ಕಟ್ಟು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೬. ದೇವ ದೇವ ವೆನ್ನ ಕತ್ತಿ

ದೆಬ್ಬ(ಕೋ)ರ್ದ್ವಕೊನುನಾ ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೭. ತಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಿ ಬ್ರೋವ(ಕು)ಣ್ಣೇ

ತನಯುನಿ(ಕೇ) ದ್ರೋವ ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

ಚ೮. ರಾಜ ವರೈ ಶರಣ

ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿನುತ ಚರಣ ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

Malayalam

೧. ಪಾಹಿ ರಮಾ ರಮಣ ಮಾಂ

ಪಾಹಿ ಸದ್‌ಗುಣ ಗಣ ಹರೇ ರಾಮ

೨. ಚಿನ್ನ ಮಾನ ನೀದು ಕರುಣ

ಇಸು(ಮ)ನ್ನ ರಾದು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

೩. ಎ(ನ್ನ)ನಿ ಸೈರಿನ್ನು

ನೇನೇ(ಮ)ನಿ ವೇಗಿನ್ನು ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

೪. ಅಹಹ ಚಿಲುಕ ಕೂನ

ಬ್ರ(ಹ್ಯಾ)ಸ್ತ ಮುನಕು ತಗುನಾ ಹರೇ ರಾಮ (ಪಾ)

- ച4. ചേതി മല്ലെ പൂവു
 ഗുണ്ഡ്രാതി(കോ)ര പൊദു ഹരേ രാമ (പാ)
- ച5. ദോസ പണ്ഡു(കെ)ട്ടു രാമ
 തോചു(നി)നുപ കട്ടു ഹരേ രാമ (പാ)
- ച6. ദേവ ദേവ വെണ കുത്തി
 ദെബ്ര(കോ)ർചുകൊന്നുനാ ഹരേ രാമ (പാ)
- ച7. തല്ലി തണ്ഡ്രി ബോവ(കു)ണ്ടേ
 തനയുനി(കേ) ദോവ ഹരേ രാമ (പാ)
- ച8. രാജ വര്യ ശരണ
 ത്യാഗരാജ വിനുത ചരണ ഹരേ രാമ (പാ)

Assamese

- പ. പാഹി ബമാ ബമണ മാം
 പാഹി സദ്ഗുണ ഗണ हरे बाम
- ച1. ചിന്ത മാന നീദു കർണ്ണ
 ഇസു(മ)സു ബാദു हरे बाम (പാ)
- ച2. എ(സു)നി സൈബിതു
 നെനെ(മ)നി രേഗിസു हरे बाम (പാ)
- ച3. അഹ ചിലുക കൂന
 ര(ക്മാ)ജ്മുനകു തഗുനാ हरे बाम (പാ)
- ച4. ചേതി മല്ലെ പൂവു
 ഗുണ്ഡ്രാതി(കോ)ർ പൊദു हरे बाम (പാ)
- ച5. ദോസ പപ്പു(കെ)ട്ടു ബാമ
 തോചു(നി)നുപ കട്ടു हरे बाम (പാ)
- ച6. ദേവ ദേവ രേണ കതി
 ദെവ(കോ)ർകോനുനാ हरे बाम (പാ)
- ച7. തല്ലി തണ്ഡ്രി രോര(കു)ന്റേ
 തനയുനി(കേ) മോര हरे बाम (പാ)
- ച8. രാജ രയ് ശരണ
 ജ്യാഗരാജ വിനുത ചരണ हरे बाम (പാ)

Bengali

প. পাহি রমা রমণ মাং

পাহি সদৃশণ গণ হরে রাম

চ১. চিন্ত মান নীদু করুণ

ইসু(ম)ন্ত রাদু হরে রাম (পা)

চ২. এ(ন্ত)নি সৈরিন্তু

নেনে(ম)নি বেগিন্তু হরে রাম (পা)

চ৩. অহহ চিলুক কুন

ব(ক্ষা)ম্মুনকু তগুনা হরে রাম (পা)

চ৪. চেতি মল্লে পুবু

গুণ্ণাতি(কো)ব পোদু হরে রাম (পা)

চ৫. দোস পপু(কে)ট্টু রাম

তোচু(নি)নুপ কট্টু হরে রাম (পা)

চ৬. দেব দেব বেন্ন কত্তি

দেব(কো)চুকোনুনা হরে রাম (পা)

চ৭. তল্লি তপ্তি বোব(কু)ণ্টে

তনয়ুনি(কে) দ্রোব হরে রাম (পা)

চ৮. রাজ বয় শরণ

আগরাজ বিনুত চরণ হরে রাম (পা)

Gujarati

પ. પાહિ રમા રમણ માં

પાહિ સદ્‌ગુણ ગણ હરે રામ

ચ૧. ચિન્ત માન નીદુ કરુણ

ઈસુ(મ)ન્ત રાદુ હરે રામ (પા)

ચ૨. અ(ન્ત)નિ સૈરિન્તુ

નેને(મ)નિ વેગિન્તુ હરે રામ (પા)

ચ૩. અહહ ચિલુક કૂન

- ଓ(କ୍ଷା)ସ୍ତ୍ରମୁନକ୍ତୁ ତଗୁନା ଛରେ ରାମ (ପା)
 ଧ୪. ଧୈତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ପୁଂସୁ
 ଗୁଞ୍ଜାତି(କ୍ଷ)ର୍ବ ପୋକ୍ତୁ ଛରେ ରାମ (ପା)
 ଧ୫. ଶୈସ ପାଞ୍ଜୁ(କ୍ଷ)ଟ୍ଟୁ ରାମ
 ତୌଧୁ(ନି)ନୁପ କଟ୍ଟୁ ଛରେ ରାମ (ପା)
 ଧ୬. ଶୈବ ଶୈବ ବଞ୍ଜ କୃତି
 ଶୈଓଓ(କ୍ଷ)ର୍ଦ୍ଧୁକ୍ଷୁନୁନା ଛରେ ରାମ (ପା)
 ଧ୭. ତଢ଼ିତ ତଢ଼ିତ୍ତ ଓଓ(କ୍ଷ)ଞ୍ଜେ
 ତନଧୁନି(କ୍ଷ) ଢୌବ ଛରେ ରାମ (ପା)
 ଧ୮. ରାଞ୍ଜ ବର୍ଯ୍ୟ ଶରଞ୍ଜ
 ତ୍ୟାଗରାଞ୍ଜ ବିନୁତ ଧରଞ୍ଜ ଛରେ ରାମ (ପା)

Oriya

୧୦. ପାହି ରମା ରମଣ ମାଁ
 ପାହି ସଦ୍ଗୁଣ ଗଣ ହରେ ରାମ
 ୧୧. ଚିତ୍ତ ମାନ ନୀଦୁ କରୁଣ
 ଇସୁ(ମ)କ୍ତ ରାଦୁ ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୨. ଧ(କ୍ଷ)ନି ଶୈରିକ୍ତୁ
 ନେନେ(ମ)ନି ଶୈରିକ୍ତୁ ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୩. ଅହହ ଚିଲ୍ଲକ କୁନ
 ବ୍ର(ହ୍ମ)ଧ୍ରମୁନକ୍ତୁ ତରୁନା ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୪. ଚେତି ମଲ୍ଲେ ପୁଞ୍ଜୁ
 ଗୁଞ୍ଜାତି(କୋ)ର୍ଷ ପୋଦୁ ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୫. ଦୋସ ପଶୁ(କେ)କୁ ରାମ
 ତୋରୁ(ନି)ନୁପ କକୁ ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୬. ଦେଞ୍ଜ ଦେଞ୍ଜ ଶୈନୁ କଞ୍ଜି
 ଦେକ(କୋ)ର୍ତ୍ତୁକୋନୁନା ହରେ ରାମ (ପା)
 ୧୭. ତଲ୍ଲି ତଲ୍ଲି ଦ୍ରୋଞ୍ଜ(କୁ)କ୍ଷେ
 ତନୟୁନି(କେ) ଦ୍ରୋଞ୍ଜ ହରେ ରାମ (ପା)

੨੮. ਕਮਲ ਖੜਕ ਗਿਰੀ

੨੯. ਕਮਲ ਖੜਕ ਗਿਰੀ ਕਮਲ ਕਮਲ (੨੮)

Punjabi

੩੦. ਪਾਹਿ ਰਮਾ ਰਮਣ ਮਾਂ

ਪਾਹਿ ਸਦਗੁਣ ਗਣ ਹਰੇ ਰਾਮ

੩੧. ਚਿਨਤ ਮਾਨ ਨੀਦੁ ਕਰੁਣ

ਇਸੁ(ਮ)ਨਤ ਰਾਦੁ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੨. ਏ(ਨਤ)ਨਿ ਸੈਰਿਨਤੁ

ਨੇਨੇ(ਮ)ਨਿ ਵੇਗਿਨਤੁ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੩. ਅਹਹ ਚਿਲੁਕ ਕੂਨ

ਬੁ(ਹਮਾ)ਸਤੁਮਨੁਕੁ ਤਗੁਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੪. ਚੇਤਿ ਮੱਲੇ ਪੂਵੁ

ਗੁਣਕ੍ਰਾਤਿ(ਕੇ)ਰੂ ਪੇਦੁ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੫. ਦੋਸ ਪਣਡੁ(ਕੇ)ਟਟੁ ਰਾਮ

ਤੋਚੁ(ਨਿ)ਨੁਪ ਕੱਟੁ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੬. ਦੇਵ ਦੇਵ ਵੋਨ ਕੱਤਿ

ਦੋਬ(ਕੋ)ਰਚੁਕੋਨੁਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੭. ਤੱਲਿ ਤਣਿਕੁ ਬੋਵ(ਕੁ)ਣਟੇ

ਤਨਯੁਨਿ(ਕੇ) ਦੋਵ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)

੩੮. ਰਾਜ ਵਰਯ ਸਰਣ

ਤਜਾਗਰਾਜ ਵਿਨੁਤ ਚਰਣ ਹਰੇ ਰਾਮ (ਪਾ)